



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 636]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 8, 2016/भाद्र 17, 1938

No. 636]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 8, 2016/BHADRA 17, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2016

सं. 34/2016-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 874(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 12/2012-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 17 मार्च, 2012, जिसे सा.का.नि. 163 (अ), दिनांक 17 मार्च, 2012 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं. 192 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और संबंधित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“192	71	(I) सुनार या रजतकार की वस्तुएं, कीमती धातु के साथ कीमती धातु का या धातु मिट्टी की वस्तुएं जिन पर ब्रांड का नाम नहीं है;	शून्य	52A
		(II) आभूषण की वस्तु या उसके भाग के विनिर्माण में प्रयुक्त	शून्य	52A
			शून्य	-

		<p>सोने की स्ट्रिप , तार, शीट, प्लेट और फायल; (III) कीमती और अर्ध कीमती पत्थर संश्लिष्ट पत्थर और मोती। स्पष्टीकरण प्रविष्टि यथास्थिति, (I), (II) और (III) के प्रयोजनों के लिए-</p> <p>(i) "धातु" के अंतर्गत निम्नलिखित हैं,- (क) कोई मिश्र धातु जिसमें ऊपर मद संख्याक (I) पर इस प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट कोई धातु भार के अनुसार ऐसी मद में विनिर्दिष्ट प्रत्येक अन्य धातुओं से अधिकता में है या ऐसी मिश्र धातु में कोई अन्य धातु; (ख) कोई मिश्र धातु जिसमें सोने के तत्व भार के अनुसार 37.5 प्रतिशत से कम नहीं हैं;</p> <p>(ii) सोने के संबंध में "चीजों" से परिष्कृत रूप में (आभूषणों से भिन्न) कोई चीज से अभिप्रेत है जो सोने से बनाई गई या विनिर्मित की गई है या जिसमें सोना अंतर्विष्ट है और इसके अंतर्गत सोने की चेन और सोने की किसी चीज के टुकड़े भी हैं किन्तु इसमें प्राथमिक सोना अर्थात् किसी अपरिष्कृत या अर्धपरिष्कृत रूप में सोना जिसमें सिलियां, छड़ें, ब्लाक, स्लैब, बिलेट, शाट, पैलेट ,राड, शीट, फायल और तारें हैं, नहीं है।</p>		
--	--	---	--	--

[फा. सं. 354/122/2016-टीआरयू]

अनुराग सहगल, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना सं. 12/2012-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 17 मार्च, 2012 को सा.का.नि. 163 (अ), दिनांक 17 मार्च, 2012 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 33/2016-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 2 सितंबर, 2016, जिसे सा.का.नि. 852 (अ), दिनांक 2 सितंबर, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th September, 2016

No. 34/2016 – Central Excise

G.S.R. 874(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby

makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 12/2012-Central Excise, dated the 17th March, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* G.S.R. 163 (E), dated the 17th March, 2012, namely:-

In the said notification, in the Table, for serial number 192 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries relating thereto, shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"192"	71	<p>(I) Articles of goldsmiths' or silversmiths' wares of precious metal or of metal clad with precious metal, not bearing a brand name;</p> <p>(II) Strips, wires, sheets, plates and foils of gold, used in the manufacture of articles of jewellery and parts thereof;</p> <p>(III) Precious and semi-precious stones, synthetic stones and pearls.</p> <p>Explanation. – For the purposes of entries (I), (II) and (III) as the case may be,-</p> <p>(i) "metal" shall include,-</p> <p style="padding-left: 40px;">(a) any alloy in which any of the metals specified in this entry at item No. (I) predominates by weight over each of the other metals specified in such item or any other metal in such alloy;</p> <p style="padding-left: 40px;">(b) any alloy in which the gold content is not less than 37.5 per cent by weight;</p> <p>(ii) "articles" in relation to gold shall mean anything (other than ornaments), in a finished form, made of, or manufactured from or containing, gold and includes any gold coin and broken pieces of an article of gold but does not include primary gold, that is to say, gold in any unfinished or semi-finished form including ingots, bars, blocks, slabs, billets, shots, pellets, rods, sheets, foils and wires.</p>	<p>Nil</p> <p>Nil</p> <p>Nil</p>	<p>52A</p> <p>52A</p> <p>-</p>

[F. No. 354/122/2016 –TRU]

ANURAG SEHGAL, Under Secy.

Note:- The principal notification No. 12/2012-Central Excise, dated the 17th March, 2012 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 163(E), dated the 17th March, 2012 and last amended *vide* notification No. 33/2016 -Central Excise, dated the 2nd September, 2016 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 852(E), dated the 2nd September, 2016.